

कार्यालय नगर परिषद् नौगांव, जिला-छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक 2309/न.प./2020
प्रति,

दिनांक 16/12/2020


संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
सागर संभाग सागर

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय लेखों के आडिट रिपोर्ट के संबंध में ।

—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिका परिषद् नौगांव के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय लेखों की जांच कर सीए द्वारा आडिट रिपोर्ट निकाय में कल दिनांक को सौपी गई जो संलग्न कर आपकी सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्न- रिपोर्ट


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् नौगांव
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

PRIYA KAUSHIK & CO.

Chartered Accountants

परीक्षण विवरण

वर्ष 2019-20

कार्यालय नगर पालिका नौगाँव जिला छतरपुर म. प्र.

क्रं.	व्यारे	टिप्पणी
राजस्व की लेखा परीक्षा		
1	विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्ति की जाँच	हमारे द्वारा विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्ति की जाँच की गई है जिसका विवरण हमारे द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पत्रक में किया गया है।
2	रेवेन्यू रिसिप्ट को रिसिप्ट बुक से जांचना एवं जांच करना की जो पैसा प्राप्त हुआ है वह निर्धारित बैंक में जमा किया गया है	हमारे द्वारा रेवेन्यू रिसिप्ट बुक में जांचा गया एवं देखा गया की जो पैसा प्राप्त हुआ है वह निर्धारित बैंक में जमा किया गया है।
3	ऐसे मामले जहाँ नगदी जमा करने में 02 दिन से अधिक का समय लगा	नहीं
4	रोकड़ वही में प्रविष्टियों की जाँच ।	हमारे द्वारा कैशियर कैशबुक एवं लेखापाल कैशबुक में प्रविष्टियों की जांच की गई। लेखापाल कैशबुक की जाँच के दौरान हमें कुछ अंक गणितीय त्रुटियाँ मिली, जिसे हमारे द्वारा आय-व्यय पत्रक में सही कर लिया गया एवं लेखापाल को कैशबुक में सुधार कराया गया है।
5	मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति	हमने लेखापाल से इस पद मुद्दे पर चर्चा की लेखापाल द्वारा हमें सूचित किया की हमारे द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचित किया कि हमारे द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त कार्य एवं बसूली की जाती है।
6	एफ.डी. आर. पर ब्याज की प्राप्ति की जांच एवं उसका रोकड़ वही में लेखांकन	हमारे द्वारा एफ. डी. आर. एवं उन पर ब्याज की जानकारी मांगी गई परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष के दौरान वही एफ.डी. आर. किया गया ।
व्यय की लेखा परीक्षा		
1	सभी योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्ययों की जाँच	लेखापाल द्वारा सभी योजनाओं पर किये गए व्ययों की जानकारी दी गई जिन्हें जांच के दौरान सही पाया गया ।
2	रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ एवं उनका प्रासंगिक वाउचर से जाँच ।	हमने रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ एवं प्रासंगिक वाउचरों की जाँच की जाँच के दौरान लगभग सभी चीजें सही पाई गई।
3	रोकड़ वही में मासिक बैलेंस की जाँच ।	हमने रोकड़ वही की मासिक शेष की जाँच की जो की बैंक खातों के अनुसार नहीं पाई गई।
4	विशेष योजनाओं में किये गए व्ययों को उस योजना के अंतर्गत मिली राशि के अनुरूप होने की जाँच ।	हमारे द्वारा स्कीम वाइस सारे व्ययों की जाँच की गई और पाया गया की व्यय कोष आबंटन तक ही सीमित है।
5	व्ययों का भारत सरकार/राज्य सरकार अनुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होने की जाँच ।	यहाँ समस्त व्यय का भारत सरकार/ राज्य सरकार अनुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किये गए।
6	फाइनेंसियल प्रापर्टी की जाँच । सारे व्यय सक्षम वित्तीय एवं प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा उनकी सीमा में स्वीकृत किये जाने के उपरांत किये गए हों।	हमें सारी फाइल वित्तिय वर्ष 2019-20 की दी गई । सारे व्यय सक्षम वित्तीय एवं प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उनकी सीमा में स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही किये गए हमें वित्त वर्ष 19-20 में जारी किए गए टेंडर की फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए उस पर राय देना संभव नहीं है।
7	वे सभी मामले जहाँ पर उचित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।	सभी मामलों को उचित स्वीकृति प्राप्त हुई ।
8	योजना एवं परियोजना अनुसार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जाँच । एवं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की योजना एवं परियोजना के अनुसार आय एवं व्यय	उपयंत्री लोक निर्माण विभाग नगर परिषद के द्वारा प्रस्तुत अवलेख अनुसार शासन की योजनाओं के UC उपयोगिता प्रमाण निर्धारित समय सीमा में नहीं भेजा जाना पाया गया।

HIG-510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No.9981502022,9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नौगाँव (म. प्र.)

बुक कीपिंग की लेखा परीक्षा		
1	सभी खाते वही एवं स्टोर की जाँच।	हमने कैशियर कैशबुक, लेखापाल कैशबुक, वाउचर, प्रापटी, टैक्स रजिस्टर, दुकान किराया रजिस्टर और स्टॉर्स रजिस्ट्रों की जाँच की, हमें उसमें जो भी विसंगतियाँ प्राप्ति हुई। जिन्हें साल के अंत में सुधार लिया गया।
2	सभी खाते वही एवं स्टॉर्स लेखा नियमों के अनुरूप बनाए गए होने की जाँच।	सभी खाते वही एवं स्टॉर्स लेखा नियमों के अनुरूप बनाए गए।
3	एडवांस रजिस्टर की जाँच। एडवांस की शर्तों के अनुसार समय से खातों में करना एवं उनकी वसूली की जाँच।	वर्ष 2019-20 में निकाय द्वारा अग्रिम ऋण नहीं दिया गया।
4	बैंक रिकन्सिलेशन की जाँच।	हमारे द्वारा बी. आर. एस. की मांग की गई, इस सन्दर्भ में लेखापाल द्वारा बताया गया की उनके द्वारा बी. आर. एस. बनाए गए।
5	ग्रॉट रजिस्टर की सभी प्रविष्टियों की जाँच एवं उनकी प्राप्ति एवं भुगतान का रोकड़ बही में प्रविष्टियों से मिलान।	लेखापाल द्वारा ग्रॉट रजिस्टर बनाया गया है, जिससे सभी ग्रॉट की राशि सही तरीके से अलग अलग मद में प्रस्तुत नहीं की गयी है।
6	अचल संपत्ति के रजिस्टर का अन्य रिकार्ड्स से मिलान।	अधिकारियों को चार्ज की सारी अचल संपत्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन अचल संपत्ति रजिस्टर बनाया जाय एवं आगामी सम परीक्षा में उपलब्ध कराया जाये।
7	परियोजना अनुसार भुगतान एवं प्राप्ति का मिलान।	हमारे द्वारा परियोजना अनुसार भुगतान एवं प्राप्ति का मिलान किया गया जिसमें समस्त प्राप्ति एवं भुगतान आसन के नियमों के अनुसार ही किये गये।
निविदाएं / बोली की लेखा परीक्षा।		
1	यू. एल. बी. द्वारा आमंत्रित सभी निविदा/बोली की जाँच।	यू. एल. बी. द्वारा आमंत्रित सभी निविदा /बोली की टेंडर फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
2	सभी निविदा बोलियों में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रियाओं का पालन होने की जाँच।	निविदा फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
3	निर्माण एवं रखरखाव की अवधि में सभी निविदा शुल्क /बिड प्रोसेसिंग शुल्क /परफॉरमेंस गारंटी की प्राप्ति की जाँच।	निविदा फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई।
4	ऐसे मामले जहाँ पर बैंक गारंटी, बिड प्रोसेसिंग शुल्क /परफॉरमेंस गारंटी एवज में प्राप्त हुई हो, उनको जारी किये गये बैंक द्वारा सत्यापन।	हमने लेखापाल के साथ इस मामले पर चर्चा की है और लेखापाल ने हमें बताया की वर्तमान में कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाती है।
5	बैंक गारंटी की शर्तों की जाँच एवं ऐसे बैंक गारंटी जो यू. एल. बी. के हित में न हो उनका उल्लेख	लागू नहीं।
6	बैंक गारंटी की एक्सटेंशन की जाँच।	लागू नहीं।
अनुदान और ऋण की लेखा परीक्षा		
1	केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जाँच।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जाँच।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की राज्य सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
3	फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान किये गये ऋण एवं उनकी उपयोगिता की जाँच। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रेवेन्यू मैकेनिज्म पर टिप्पड़ी एवं उस फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू उत्पन्न ना होने के संभावित कारणों पर टिप्पणी।	लागू नहीं।

HIG-510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No.9981502022,9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com



मुख्य वित्त प्रशासक अधिकारी
वित्त प्रशासिका परिषद्
भोपाळ (म.प्र.)



PRIYA KAUSHIK & CO.

Chartered Accountants

4	कैपिटल रिसिप्ट्स / ग्रांट्स सामान्य खर्चों के लिये प्राप्त लोन के पैसों में डायवर्सन के मामलों की जांच।	ऑडिट के दौरान कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया।
F	अनुदान और ऋण की लेखापाल	
1	केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जांच।	जानकारी मांगने पर लेखापाल ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई है उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी ग्रांट्स एवं उनके उपयोग की जांच।	जानकारी मांगने पर लेखाकार ने बताया की राज्य सरकार द्वारा जो भी ग्रांट आई उसे उस मद में उपयोग किया गया है।
3	फिजिकल के लिए प्रदान किये गये ऋण एवं उनकी उपयोगिता की जांच। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रेवेन्यू गेकेनिज्म पर टिप्पणी एवं उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू उत्पन्न ना होने के संभावित कारणों पर टिप्पणी।	लागू नहीं।
4	कैपिटल रिसिप्ट्स / ग्रांट्स सामान्य खर्चों के लिये प्राप्त लोन के पैसों में डायवर्सन के मामलों की जांच।	ऑडिट के दौरान कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया।
	अन्य	
1	आयकर अधिनियम में निर्धारित दर पर TDS कटौति की जांच जाता है।	हमारे द्वारा TDS कटौति की जांच की गई जिसमें पाया गया की TDS आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार में निर्धारित दर पर काटा जाता है।
2	काटा गया TDS समय पर विभाग को जमा किये जाने की जांच।	TDS समय पर आयकर विभाग में जमा किया गया।
3	TDS के दर से भुगतान पर ब्याज कैषबुक में दर्ज किया गया अथवा नहीं।	लागू नहीं।
4	होर्डिंग्स पर विज्ञापन कर के लिए राजस्व में निर्धारित MPMAM के अनुसार खातों में दर्ज किया गया अथवा नहीं।	होर्डिंग्स पर विज्ञापन कर के लिए राजस्व में निर्धारित MPMAM नियमों के अनुसार खातों में दर्ज किया गया।
5	वहनों के लिए लोग बुक बनाए गए अथवा नहीं।	वहनों के लिए लोग बुक नहीं बनाए गए।
6	राजस्व के बकाया के लिए प्रावधान किए गए अथवा नहीं।	राजस्व के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गए।
7	वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थाई संपत्ति MPMAM में निर्धारित एफएआर नियमों में अपडेट की जाती है अथवा नहीं।	लेखापाल द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अचल संपत्ति की खरीदी और बिक्री की विवरण आय व्यय पत्रक में है। अधिकारियों को चाहिए की सारी संपत्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन करायी जाये।
8	वहन बीमा कैषबुक में ठीक से दर्ज की जाती है।	वाहन का बीमा कैषबुक में दर्ज नहीं है।
9	सभी ओपनिंग बैलेंस सर्टिफिकेट ULB के साथ उपलब्ध होने की जांच।	ओपनिंग बैलेंस ULB सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध नहीं है।
10	भविष्य निधि में कर्मचारियों योगदान के लिए उचित रिकार्ड बनाने की जांच।	भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान के लिए उचित रिकार्ड बनाए जा रहे हैं।
11	वाउचर बिलों के समर्थन के साथ उपलब्ध है अथवा नहीं।	वाउचर बिलों के समर्थन के साथ उपलब्ध है।

As per our audit report enclosed and to be read along with the audit report and Notes to the account which are forming integral part of the financial statements.



For Priya Kaushik & co.
Chartered Accountants

CA. Prateek Kaushik
Pratner
M.No. 401728

HIG- 510, BDA COMPLEX, 7 NO. STOP, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL

Mb. No. 9981502022, 9893339515

Email Id:- kaushikprateekca@gmail.com

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
जगाँव (प.प्र.)

NAGAR PALIKA PARISHAD - NOWGONG DIST. CHHATARPUR (M.P.)

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

FOR THE PERIOD 01.04.2019 TO 31.03.2020

PARTICULARS .	AMOUNT.	PARTICULARS .	AMOUNT.
Opening Balance (Annx - 1)	106810300	SECURITY DEPOSIT RETURN	3214533
APPLICATION/PRAMAN PATRA FEES	44833	ALAO EXP.	97196
BAZAR FEES	1438694	MACHINERY RENT	160903
CESS	505275	ANTESHTHI SAHAYATA	60000
EXPORT TAX	666048	VEHICAL RENT	776466
INTEREST RECEIPT	2319246	MASTER PAYMENTS	870880
JAN BHAGEDARI	48250	BIDHUT BILL	1449386
NAGAR VIKAS UPKER	232825	ROAD/BUILDING/GROUND/PARK/ Bridge	25851156
NEW NAL CONNECTION FEES / DISCONNECTION FEE	986200	MARMMAT (COMPUTER /OTHER)	15464
OTHER RECEIPT	153234	D. P. R.	296530
PROPERTY TAX	701547	POWER & FUEL (DIESEL)	2279281
ROAD REPAIR & MAINTENANCE	841500	JAL PRADAY MARAMMAT	728540
SAMEKIT KAR	699059	JAL PRADAY SAMAGRI	1448973
SAMJHOUTA SULK/SERVICE FEE	22536	MARMMAT (BHAWAN/RASTA)	2984231
SHOP RENT/LEASE			
RENT/OFFICE/BUILDING/LAND/ BUS STAND	3037026	KANOONI PRABHAR	169040
SHOP TRANSFER RECEIPTS	187032	LEKHA/AUDIT/BUDGET EXP.	88400
TENDER FORM FEES	371543	LOAN REPAYMENT CHUKAYA	8469025
TRUCK TRACTOR BAILGADI THEKE GUMTI RECPTS	74755	SERVICE TAX	678376
VIKASH SHULK	130400	PLANT AND MACHINERY	4543616
WATER TAX	2720863	OTHER EXPENSES	62923
YATRI TAX	1151497	PARIVAHAN	81800
VIGYAPAN FEE	50520	WATERWAYS	11905865
EDUCATION CESS	36040	SALARY WAGES AND OTHER	40128214
PM AWASH YOJNA	67585803	SAMAST BAHAN MARMMAT	936221
UNDISCLOSED A/C	8736	STATIONARY	225175
VIDHAYAK NIDHI	715000	STREET LIGHT BILL	1916115
TANKAR FEE	1350	SVAGAT STKAR	1536441
14th VITT AYOG	26890000	ETC)	4271712
SADAK MARAMMAT	2709000	FURNITURE/FIXTURES/FITTING/ ELECTRICAL	2887241
VADIJJYA KAR PAR ADHIBHAR	10657000	PM AWASH	61389910
MUDRANK SHULK	1544000	TENDER FEE	7000
RAJYA VITT AYOG	4690000	SWACHHTA BHARAT ABHIYAN	1527498
CHUNGI SHATIPURTI ANUDAN	40667122	TELEPHONE	39993
YATRI KAR SHATIPURTI	2413000	TENT PANDAL	2728061
		SOUND/PROGRAM/IRIVACHAN	440837
		VAHAN REGISTRATION BEEMA	

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नौगांव (म.प्र.)



VIDHYUT SAMAGRI/MARMMAT	493288
VIDHAYAK NIDHI	289780
VIGYAPAN	1305110
EPF	5531935

Closing Balance (Annx- 1) 89223119

TOTAL 281110234

TOTAL 281110234

As per our audit report enclosed and to be read along with the audit report and Notes to the account which are forming integral part of the financial statements.

मुख्य भूत मालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नगरपालिका (प्र.प्र.)

For Priya Kaushik & co.
Chartered Accountants
BHOPAL
CA. Prateek Kaushik
Partner
M.No. 401728

Bhopal ,

1. आय व्यय पंजी को उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया है, जिसमें प्राप्त एवं भुगतान दोनों की प्रविष्टि करने में त्रुटि की गयी है, अतः निकाय को आय एवं व्यय पंजी को संशोधित करना चाहिए

2. We have compiled the financial data only and done the audit of the financial data. Our audit do not cover the forensic angle or the forensic audit and our audit is not objected to identify the fraud or embezzlement if any. Identification of the fraud or embezzlement is the duty of the management and management should establish that internal control which are sufficient to restrict occurrence of such events and in our opinion the internal control is weak and it should be made more strengthen.

3. The compilation of records and vouchers are the prime responsibility of the management / audtee and we have given our report based on the records and vouchers produced before us.

4. Reconciliation of the bank accounts :- Bank reconciliation statements are not prepared hence the bank balances are subject to reconciliation and confirmation.

Annx -1

	01.04.2019	31.03.2020	Remark
SBI CHH A/C 50363137848	178051.01 Dr	184383.01 Dr	
SBI CHH A/C 50378473973	770331.00 Dr	797725.00 Dr	
SBI CHH A/C 3018269881	1694906.00 Dr	1755177.00 Dr	
HDFC BANK A/C 50100092610030	5001668.28 Dr	5703187.28 Dr	
HDFC BANK A/C NO. 50100154876251	2217182.00 Dr	2315787.00 Dr	
HDFC BANK A/C NO. 50100220952199	22835.00 Dr	891861.00 Dr	
JKSB NOWGONG 09	25974.23 Dr		Closed
JKSB NOWGONG FD NO. 27716	220013.00 Dr		Closed
MGB A/C NO.8058307391	3895099.57 Dr	104125.57 Dr	
MGB A/C NO. 8058307426	378895.03 Dr	1012966.08 Dr	
MGB A/C NO. (Aswachh Ghatak)	694.00 Dr		Closed
MGB NOWGON FD A/C 8058235405	234338.00 Dr		
MGB NOWGONG FD A/C 80034446201		2200000.00 Dr	New FDR
MGB NOWGONG FD A/C 8058235700	492348.00 Dr		Closed
MGB NOWGONG (GANDI YATRI)	9934.00 Dr		Closed
MGB NOWGONG (JAL VIKAS)	9920.00 Dr		Closed
SBI A/C NO. 10703024098	1485214.50 Dr	2354711.50 Dr	
SBI A/C NO. 10703024225	83540095.38 Dr	60400603.21 Dr	
SBI FD NO. 176958 (SULABH)	127200.00 Dr	127200.00 Dr	Intt. Not taken
SBI FD NO. 176959 (SANCHIT NIDHI)	330718.00 Dr	330718.00 Dr	Intt. Not taken
SBI FD NO. 182444 (SANCHIT NIDHI)	743875.00 Dr	743875.00 Dr	Intt. Not taken
UNB A/C NO. 504502010020020 (AAWASH)	3382332.56 Dr	10000755.17 Dr	
UNION BANK OF INDIA A/C NO. 594502010005579 (NIKAY)	1926865.23 Dr	178234.62 Dr	
Cash In Hand	121810.00 Dr	121810.00 Dr	Not Verified
Grand Total	106810299.84 Dr	89223119.44 Dr	

मुख्य नगर पालिका अधिकांसी
नगर पालिका परिषद
नौगाँव (म.प्र.)



Bank Reconciliation Statement
Nagar Palika Nowgong,

Bank Reco for A/c No. Union Bank Of India 59450201000579
01.04.2019 to 31.03.2020

BALANCE AS PER OUR BOOKS	178234
Add :	
Chq Debited by us but not presented in Bank 31.03.2020 - Rs.95550/-	95550
	95550
Balance as per Bank	273784
Diff	-

Bank Reco for A/c No. STATE BANK OF INDIA(24225)
01.04.2019 to 31.03.2020

BALANCE AS PER OUR BOOKS	60400603
Less :	
Chq Credited by us but not presented in Bank 31.03.2020 - Rs.100000/-	100000
	100000
Balance as per Bank	60300603
Diff	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नोवागोंग (म.प्र.)



REVISED ABSTRACT SHEET FOR REPORTING ON PARA NO. 8 (a) & (b) FOR FINANCIAL YEAR 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Palika Parishad Nowgong Dist. Chhatarpur (M.P.)

Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal

Para 8 (a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, salary, operation & maintenance) With Respect To Revenue Receipts (Tax & Non Tax)

Sr.No.

PARTICULAR

AMOUNT

1 Revenue Expenditure 80474460
2 Revenue Receipts 29453741

Percentage

0.36

Para 8 (a) Percentage of Capital Expenditure With Total Expenditure

Sr.No.

PARTICULAR

AMOUNT

1 Capital Expenditure 111412655
2 Total Expenditure 191887115

Percentage


0.42

Whether all the temporary advance have been fully received or not
Whether Bank Reconciliation statements is being regularly prepared.

No Such Case Found

Bank Reconciliation statements is not produced before us for verification.

(Signature)
प्रिया कांशिक (अ.म.)
चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स




Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Palika Parishad Nowgong Dist.
Chhatarpur (M.P.) Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co.,

Sr.No.	Parameters	Descriptions	Observation In Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue	There is deduction in Tax Collection.	Tax Amount is Increased from last year.	UC should prepare Quarter wise details for all taxes
2	Audit of Expenditure	Nagar Parishad has not properly maintained scheme wise /project wise expenses	Utilization certificate and work register has not provide us for audit.	Utilization certificate and work register should be maintained
3	Audit of Book Keeping	Cashbook was maintained properly.	Nowgong Municipality has not maintained cashbook on the basis of date of bank passbook entries regularly.	
4	Audit of FDR	Interest on FDR not booked	Interest of deposits not taken in the cashbook. Original FDR are not produced before us for verification	Interest should be taken regularly
5	Audit of Tenders/Bids	Tenders allotted on quotation/limited tender basis are not made available before us for variation therefore we are unable to give our opinion on the same.	Not Applicable	Not Applicable
6	Audit of Grants & Loans	ULB has not prepared any utilization certificate; grant register was not properly updated and not maintained.	Grant register should be incorporated.	Grant should be utilized proper way
7	Incidence relating to diversion of funds from Capital Receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/project to another	Grant register was not update, and also no separate records were prepared from where diversion of funds can be ascertained.	Project wise scheme wise head wise records i.e. Scheme wise cash book are not prepared from where specific receipt & payments could be identified.	Proper book keeping for project wise scheme wise income & expenditure should be maintained so that bifurcation of capital and expenditure and also specific expenditure from grant fund can be ascertained.

पुष्पा भारती (च.प्र.)
अभिमानिका पतिव



Seal & Signature of Auditor

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name Of ULB :- Nagar Palika Parishad Nowgong Dist.

Chhatarpur (M.P.)

Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal

Name Of Auditor:- Priya Kaushik & Co., Bhopal					Observation In Brief		Suggestions
Sr.No.	Parameters	Descriptions					
1 Audit of Revenue		Receipts in Rs.		% of Growth			
राजस्व कर वसूली		Year 2018-19	Year 2019-20				
(i)	संपत्ति कर	265276	701547	2.64	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
(ii)	समीकित कर	137379	699059	5.09	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
(iii)	नगरीय विकास उपकर	35234	232825	6.61	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
(iv)	शिक्षा उपकर	13234	36040	2.72			
कुल योग		451123	1669471	3.70			
गैर राजस्व वसूली							
(i)	भवन / भूमि किराया	546469	3111781	5.69	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	396782	2720863	6.86	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
(iii)	टोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार						
(iv)	अन्य कर / शल्क	964857	751294	-0.22	There are some revenue receipts which has been deposited less from counter files of receipt books. The same are given Annexure -A	The revenue collected has to be deposited in same day	
कुल योग		1908108	6583938	3.45			
महायोग		2359231	8253409	7.15			

7

PRITYA KAUSHIK & CO.

7

मुख्य नगरपालिका अधिकाारी
नगरपालिका परिषद
नयागुंग (म.प्र.)

